

शहरभर में फैला है नकली घी बनाने वालों का जाल

Publish Date: Mon, 14 Sep 2020 05:07 AM (IST)



जाली ब्रांडों की पैकिंग में बेचा जा रहा है घी सबकुछ जानते हुए भी चुप्पी साधे रहते हैं विभाग अब मुख्यमंत्री उड़नदस्ते की कार्रवाई के बाद जगी है उम्मीद स्वास्थ्य के लिए घातक है नकली घ

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी: मुख्यमंत्री उड़नदस्ते ने शनिवार को घी के एक गोदाम पर छापेमारी की तो एक के बाद एक कई तरह की अनियमितताएं निकलकर सामने आ गईं। घी के टीनशेड पर वजन तक नहीं लिखा हुआ था और यहां तक की बिलों को लेकर भी भारी घालमेल किया हुआ था। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि देसी घी के नाम पर बड़ा खेल शहरभर में चल रहा है। शहर में दर्जनों ऐसे ठिकाने हैं जहां पर नकली देसी घी का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है।

तेल से भी सस्ता मिलता है घी

शहर में रेलवे रोड, आर्य समाज रोड, पुरानी सब्जीमंडी के निकट, बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन के आसपास तथा कई अन्य स्थानों पर नकली देसी घी का कारोबार धड़ल्ले से हो रहा है। सुनकर आपको शायद अचंभा होगा लेकिन यह पूरी तरह सच है कि शहर में कई दुकानों पर देसी घी के रेट तेल से भी कम हैं। कई ऐसे ठिकाने हैं जिनपर महज 100 रुपये में ही एक किलो देसी घी दे दिया जाता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह देसी घी कितना शुद्ध होगा। नकली देसी घी का कारोबार खुलेआम चल रहा है तथा आम आदमी की सेहत से खिलवाड़ करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है लेकिन खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम आंखे मूंदकर बैठी रहती है। जब कभी अधिक दबाव आता है तो सैंपल लेकर कागजों का पेट भर दिया जाता है लेकिन आजतक एक भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर अवैध तरीके से चल रहे मिलावट के इस खेल को बंद कराया गया हो या फिर कड़ी कार्रवाई की गई हो।

ब्रांड की पैकिंग में नकली घी

बहुत सी दुकानों पर ब्रांडेड कंपनियों के डिब्बों में नकली देसी घी डालकर बेचा जा रहा है। लोगों को भ्रमित करने के लिए कई फर्जी ब्रांड भी घी के इन कारोबारियों ने तैयार की हुई है। आम आदमी को झांसा देने के लिए घी के पैकेटों व डिब्बों पर एगमार्क भी छापा जाता है। यहां बता देना जरूरी है कि एगमार्क की मोहर वही उत्पादक अपने उत्पाद पर इस्तेमाल कर सकता है, जिसकी शुद्धता खाद्य व स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रमाणित हो तथा जिसके पास शुद्धता बनाए रखने और क्वालिटी कंट्रोल के लिए अपनी प्रयोगशाला हो तथा वह कड़े मानदंडों का पालन करता हो। इतना ही नहीं लोगों को बरगलाने के लिए नकली घी के निर्माता इसकी पैकिंग पर अपने जाली पते छापते हैं।

कई तरह से तैयार हो रहा नकली घी

विशेषज्ञों के अनुसार घी बनाने में मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त घातक रसायनों, उर्वरकों, कीटनाशकों, कूड वैक्स तथा इंडोनेशिया से आयातित पॉम ऑयल (स्टाइरिन), तंबाकू और जूट का तेल इस्तेमाल किया जाता है। यह पॉम ऑयल सस्ता और साबुन व डिटर्जेंट बनाने में इस्तेमाल होता है। इस सारे मिश्रण को देसी घी का रूप देने के लिए घी की खुशबू वाला एसेंस व रंग मिलाया जाता है। यह सब चीजें ऐसी होती हैं, जो कैंसर पैदा करती हैं। इसके अतिरिक्त मिलावटखोर असली घी में डालडा घी की मिलावट करते हैं तथा देसी घी का एसेंस, वजन बढ़ाने के लिए उबले आलू का स्टार्च व प्रिजरवेटिव का प्रयोग करते हैं, जिसके बाद घी में मिलावट का पता चलना बेहद मुश्किल हो जाता है। यह घी अधिकतर बिना लेबलिंग के खुला या पैकेट में मिलता है।

ऐसे करें असली व नकली घी की पहचानः:

-घी को हाथ पर डालकर रगड़ें, अगर घी में दाने आए तो समझ जाएं यह नकली है। असली घी हाथ पर लगाते ही समाहित हो जाता है। यही पहचान का सबसे आसान तरीका है।

- एक चम्मच घी में चार पांच बूंदें आयोडीन की मिलाएं, अगर रंग नीला हो जाता है तो घी के अंदर उबले आलू की मिलावट है।

- एक चम्मच घी में एक चम्मच हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक चुटकी चीनी मिलाएं। अगर घी का रंग लाल हो जाए तो इसमें डालडा की मिलावट है।

- थोड़ा सा घी हाथों में रगड़ें, इसे करीब 15 मिनट बाद सूंघकर देखें अगर खुशबू आनी बंद हो जाए तो मान लीजिए कि यह मिलावटी घी है।

स्वास्थ्य के लिए बेहद घातक है नकली घी

नकली घी स्वास्थ्य के लिए बेहद घातक होता है। इसमें जो केमिकल व तेल डाला जाता है उससे कैंसर जैसा घातक रोग हो सकता है। नकली घी से आंतों में इंफेक्शन होने का पूरा खतरा होता है। छोटे बच्चों व बुजुर्गों के लिए तो यह घी जानलेवा हो सकता है। इस घी से गुर्दे व लीवर के फेल होने का खतरा अधिक रहता है।

-डॉ. जेके सैनी, वरिष्ठ चिकित्सक, नागरिक अस्पताल

आम आदमी के स्वास्थ्य से किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। विभाग पहले भी लगातार सैंपल लेता रहा है तथा आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। जहां से भी हमें खाद्य पदार्थ में मिलावट की सूचना मिलती है तुरंत प्रभाव से कार्रवाई अमल में लाई जाती है।

Source: <https://www.jagran.com/haryana/rewari-news-20745862.html>